



(Pages : 2)

D – 4910

Reg. No. :

Name :

First Semester B.A. Degree Examination, February 2018
First Degree Programme Under CBCSS
Hindi Language and Literature
Complementary Course – II
HN 1132 : HISTORY OF INDIA – MEDIEVAL AND MODERN PERIOD
(2013–2016 Admission)

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

I. निर्देश: एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए।

(10×1=10 Marks)

- 1) 'हिस्ट्रॉय' किस भाषा का शब्द है ?
- 2) किस प्रकार के व्यक्ति को 'हिस्तोरे' कहते थे ?
- 3) 'बहमनी' राज्य का जन्म किस वर्ष में हुआ ?
- 4) 1914 में आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक संगठन किसने किया ?
- 5) शिवाजी के गुरु का नाम क्या था ?
- 6) सुभाषचन्द्र बोस ने किस देश में 'आजाद हिंद सरकार' का गठन किया ?
- 7) 1857 की क्रांति को विपिनचन्द्र ने क्या कहा ?
- 8) क्रिप्स मिशन किस वर्ष में हुआ ?
- 9) अकबर ने किस धर्म की स्थापना की है ?
- 10) 'ईस्ट इंडिया कंपनी' का पूरा नाम क्या था ?

II. निर्देश: किन्हीं आठ प्रश्नों के लघु उत्तर करीब 50 शब्दों में दीजिए।

(8×2=16 Marks)

- 11) गोविन्दचन्द्र पांडे के अनुसार इतिहास किन-किन शब्दों के मेल से बना है ? उसका अर्थ क्या होता है ?
- 12) विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की ?
- 13) 'बाबरनामा' का परिचय दीजिए।
- 14) सिखों को एकरूपता प्रदान करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया ?

P.T.O.



- 15) मराठों की एकता को योगदान दिए दो भक्त संतों का नाम लिखिए ।
- 16) अंग्रेजी सेना की विशेषताएँ क्या-क्या थीं ?
- 17) गाँधीजी के अहमदाबाद के आमरण अनशन का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
- 18) जलियाँवाला हत्याकाण्ड से क्रुध होकर सर शंकर नायक ने क्या किया ?
- 19) असहयोग आंदोलन का दो प्रमुख परिणाम लिखिए ।
- 20) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस कब और कहाँ आयोजित हुई ?
- 21) राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है ?
- 22) 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' को यह नाम कैसे प्राप्त हुआ ?

III. निर्देश: किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर करीब 120 शब्दों में दीजिए ।

(6×4=24 Marks)

- 23) अकबर के धार्मिक सुधार का परिचय दीजिए ।
- 24) बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे की ?
- 25) जलियाँवाला हत्याकाण्ड का विवरण दीजिए ।
- 26) भारत के सातवें दशक के मध्य का आर्थिक संकट स्पष्ट कीजिए ।
- 27) भारत छोड़ो आंदोलन का परिचय दीजिए ।
- 28) शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की है ?
- 29) मुगलकालीन वास्तुकला का परिचय दीजिए ।
- 30) 1857 के विद्रोह पर प्रकाश डालिए ।
- 31) कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ? उनके अनुसार कांग्रेस के उद्देश्य क्या-क्या हैं ?

IV. निर्देश: किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर करीब 250 शब्दों में दीजिए ।

(2×15=30 Marks)

- 32) अकबर के प्रशासनिक सुधार का परिचय दीजिए ।
- 33) गाँधीजी के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए ।
- 34) खिलाफत और असहयोग आन्दोलन का परिचय दीजिए ।
- 35) माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन पर प्रकाश डालिए ।